



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 3, 2023 (PHALGUNA 12, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2023

संख्या 9/05/2023-4क II.— हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम-10 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 9/05/2023-4क II, दिनांक 16 जनवरी, 2023 के सन्दर्भ में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों/अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर पालिका, आदमपुर, जिला—हिसार के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं :-

सीमाओं की अनुसूची

वार्ड संख्या 01:—फतेहाबाद रोड़ जो रेलवे लाईन के समानांतर जा रहा है और पश्चिमी पालिका सीमा के संगम से शुरू होकर पूर्वी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां पर पालिका सीमा उत्तर दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खैरमपुर रोड़ को पार करते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा दक्षिण दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा पूर्व दिशा की ओर खैरमपुर रोड़ और पालिका सीमा के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खैरमपुर रोड़ के साथ-साथ चलते हुए माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए माईनर गली के साथ-साथ होते हुए माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खैरमपुर रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलते बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और फतेहाबाद रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए फतेहाबाद रोड़ के साथ-साथ दड़ौली फाटक और फतेहाबाद रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम-दिशा की ओर फतेहाबाद रोड़ के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन और फतेहाबाद रोड़ जो रेलवे लाईन के समानांतर जा रहा है के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दु है।

वार्ड संख्या 02:—फतेहाबाद रोड़ और बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ के संगम से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और बस स्टेण्ड रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बस स्टेण्ड रोड़ और सिविल हॉस्पिटल रोड़ के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सिविल हॉस्पिटल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए गोपी राम धर्मशाला तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए हरि निवास जांगू के घर तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस रोड़ को पार करते हुए मुकेश राजन के घर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर गली नं० 160-171 के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पिटल रोड़ और गली नं० 160-171 के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अग्रसेन चौक तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर हनुमान मंदिर गली के साथ-साथ शक्ति बिल्डर की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए फतेहाबाद रोड़ तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर फतेहाबाद रोड़ के साथ-साथ चलते हुए फतेहाबाद रोड़ और बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दु है।

वार्ड संख्या 03:—अग्रसेन चौक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर सिविल हॉस्पिटल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पिटल रोड़ और गली नं० 160—171 के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर गली नं० 160—171 के साथ-साथ चलते हुए प्रेम सिंगला के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस रोड़ को पार करते हुए बुल सिंह के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सिविल हॉस्पिटल रोड़ तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर सिविल हॉस्पिटल के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पिटल रोड़ और बी.ई.ओ. दफतर रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बी.ई.ओ. रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सुखी गॉरमैट्स की दुकान तक इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बी.ई.ओ. दफतर रोड़ को पार करते हुए त्रिलोक सोनी के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मैन बाजार रोड़ तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए क्रांति चौक तक, इसके बाद दक्षिण की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए कॉलेज रोड़ फाटक तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ चलते हुए दड़ौली रोड़ फाटक और फतेहाबाद रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर की ओर फतेहाबाद रोड़ के साथ साथ चलते हुए दुकान नं० 130 तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए हनुमान मंदिर तक, इसके बाद उत्तर की ओर हनुमान मंदिर गली के साथ-साथ चलते हुए अग्रसेन चौक तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 04:—सिविल हॉस्पिटल रोड़ और बी.ई.ओ. दफतर के संगम से शुरू होकर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर सिविल हॉस्पिटल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पिटल रोड़ और बस स्टेण्ड के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बस स्टेण्ड रोड़ और एल.आई.सी. दफतर गली के संगम तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए एल.आई.सी. दफतर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए हाऊसिंग बोर्ड पार्क तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जयदीप शर्मा के मकान तक इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए भाल सिंह के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए विजेन्द्र सोनी के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सरकारी स्कूल रोड़ तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सरकारी स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए क्रांति चौक को पार करते हुए चाँचन मैडिकल हॉल तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रमेश चन्द्र की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बी.ई.ओ. दफतर रोड़ तक इसके बाद उत्तर दिशा की ओर बी.ई.ओ. दफतर रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सिविल हस्पताल रोड़ और बी.ई.ओ. दफतर रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 05:—बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और बस स्टेण्ड रोड़ के संगम से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए न्यू लोहा मण्डी, आदमपुर तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बालमुक्द गोयल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बलवान ए.डी.ओ. के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए शिव मन्दिर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर शिव मन्दिर मैन गली के साथ-साथ चलते हुए कृष्ण गोड़ के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए हनुमान शर्मा के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नीरज कुमार के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पवन के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मन्नु शर्मा के दफतर तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए एल.आई.सी. दफतर गली तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर एल.आई.सी. दफतर गली के साथ-साथ चलते हुए बस स्टेण्ड रोड़ तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और बस स्टेण्ड रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 06:—माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए माईनर गली और पूर्वी पालिका सीमा तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए चौधरी भजनलाल प्रेणा स्थल तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रोहा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए आदमपुर गांव बस स्टॉप को पार करते हुए महास्वर्ण चौक तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सरकारी स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए घीसाराम जैन के प्लॉट तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए डॉ. किरण के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए औमप्रकाश के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दर्शन सिंह के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बीर सिंह राहड़ के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बीर सिंह राहड़ के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जगदीश चन्द्र के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए राधे श्याम के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बैनिवाल धर्मकांटा तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर खैरमपुर रोड़ के साथ-साथ चलते हुए माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 07:—क्रांति चौक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर सरकारी स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सैनी स्टील की दुकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कालूराम के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए किशोरी लाल के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए महेन्द्र के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए प्रेम कुमार के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सतपाल के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मोहनलाल के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए शिव मन्दिर तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बलवान सिंह बैनिवाल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए अमर सिंह गोस्वामी पटवारी के प्लॉट तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामचन्द्र के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए भागीरथ के प्लॉट तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर ब्रह्मण्य धर्मशाला गली के साथ-साथ चलते हुए सुभाष सरपंच के प्लॉट तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए दुश्यंत मास्टर के प्लॉट तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए डॉ. किरण के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सरकारी स्कूल रोड़ तक,

इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर सरकारी स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए महास्वर्ण चौक तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भादरा अग्रोहा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन क्रॉसिंग तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन ओर बस स्टेण्ड रोड़ की क्रॉसिंग तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ-साथ चलते हुए क्रांति चौक तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 08:- एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ ओर भादरा अग्रोहा रोड़ के संगम से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए के.एफ.सी. रस्टोरेन्ट तक, इसके बाद पश्चिमदिशा की ओर चलते हुए कृष्ण कुमार की दुकान तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बिग ड्रीम पिज्जा हट तक, इसके बाद पश्चिमदिशा की ओर चलते हुए जयसिंह के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सुरेश वकील के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए औमप्रकाश डाका के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए विजय यादव के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गणेश मन्दिर गली पर सुरेन्द्र के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर गणेश मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए भादरा अग्रोहा रोड़ पर रेलवे लाईन पुल तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भादरा अग्रोहा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ ओर भादरा अग्रोहा रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 09:- कल्याणा कॉलोनी रोड़ ओर शान्ति निकेतन स्कूल गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर कल्याणा कॉलोनी के साथ-साथ चलते हुए सुन्दरदास पाहवा के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए एन0 के0 रेवड़ी के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दिव्या ब्यूटी पार्लर तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाईन तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए अन्नापूर्णा गैस रिपेयर दुकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कृष्ण के मकान तक, इसके बाद पश्चिमदिशा की ओर चलते हुए सत्यदेव के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए लोके पश्चिमा नागपाल के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए औमप्रकाश यादव के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गौरा सिंह सुबेदार के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ पर श्री गणेश फोटोस्टेट तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए शान्ति निकेतन स्कूल गली ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर शान्ति निकेतन स्कूल के साथ-साथ उस बिन्दू तक जहां शान्ति निकेतन स्कूल गली उत्तर दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर शान्ति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए कल्याणा कॉलोनी रोड़ ओर शान्ति निकेतन स्कूल गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 10:- कल्याणा कॉलोनी रोड़ ओर शीतला माता मन्दिर के संगम से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मोंगा डिजिटल स्टुडियो तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कमलेश ग्रोवर के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आर.एल. बिश्नोई के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कृष्ण कुमार मलहोत्रा के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए डिगवाल किरायाणा स्टोर तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए आत्मप्रकाश ठकराल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कल्याणा कॉलोनी रोड़ पर आस्था ब्यूटी पार्लर तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर कल्याणा कॉलोनी रोड़ के साथ-साथ चलते हुए कल्याणा कॉलोनी रोड़ ओर शीतला माता मन्दिर के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 11:- दड़ौली रोड़ फाटक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर रेलवे फाटक रोड़ के साथ-साथ चलते हुए अमरलाल बब्बर की दुकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मदनलाल बब्बर के मकान तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दीपक भाटिया के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रामलाल कथूरिया के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अनिल कुमार के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कल्याणा कॉलोनी रोड़ तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर कल्याणा कॉलोनी रोड़ के साथ-साथ चलते हुए दड़ौली रोड़ ओर कल्याणा कॉलोनी रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर दड़ौली रोड़ फाटक तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 12:- पश्चिमी पालिका सीमा ओर दड़ौली रोड़ के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर दड़ौली रोड़ के साथ-साथ चलते हुए शान्ति निकेतन स्कूल गली ओर दड़ौली रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर शान्ति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से शान्ति निकेतन स्कूल गली पूर्व की ओर घूमती है, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर शान्ति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए शान्ति निकेतन स्कूल गली ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए नोखवाल कन्फेक्शरी तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज की चारदिवारी के साथ-साथ चलते हुए भादरा अग्रोहा रोड़ तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भादरा अग्रोहा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए दक्षिणी पालिका सीमा तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से दक्षिणी पालिका सीमा उत्तर की ओर घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए पॉलिट्री फार्म तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा उत्तर की ओर घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पालिका सीमा ओर दड़ौली रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

वार्ड संख्या 13:—पश्चिमी पालिका सीमा ओर दड़ौली रोड़ के संगम से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा उत्तर दिशा की ओर घूमती है, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दड़ौली रोड़ फाटक तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दड़ौली रोड़ के साथ-साथ चलते हुए कल्याणा कॉलोनी रोड़ तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी पालिका सीमा ओर दड़ौली रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है।

अरुण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 3rd March, 2023

No. 9/05/2023-4CII.— In pursuance of the provision of Rule-10 of the Haryana Municipal Delimitation of Wards Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification no. 9/05/2023-4CII, dated 16th January, 2023 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of **Municipal Committee, Adampur, District- Hisar** as under:-

SCHEDULE OF BOUNDARIES

Ward No. 01 :- Starting from the junction of Fatehabad Road which is going parallel to Railway Line and Western Municipal Boundary, thence moving towards East direction along the Municipal Boundary upto the point where the Municipal Boundary turns towards North Direction, thence moving towards North direction upto the point where Municipal Boundary turns towards East direction, thence moving towards East direction by crossing Khairampur Road upto the point where Municipal Boundary turns towards South direction, thence moving towards South direction upto the point where Municipal Boundary turns towards East direction upto junction of Khairampur Road and Municipal Boundary, thence moving towards South-East direction along with Khairampur Road upto junction of Minor Street and Khairampur Road, thence moving towards West direction along with Minor Street upto junction of Minor Street and Khairampur Road, thence moving towards South direction along with Khairampur Road upto junction of BDPO Office Road and Khairampur Road, thence moving towards North-West direction along with BDPO Office Road upto the junction of BDPO Office Road and Fatehabad Road, thence moving towards South-West direction along with Fatehabad Road upto junction of Darolli Fatak and Fatehabad Road, thence moving towards North-west direction along with Fatehabad Road and Railway Line upto junction of Fatehabad Road which is going parallel to Railway Line and Western Municipal Boundary, that is the point of start.

Ward No. 02 :- Starting from the junction of Fatehabad Road and BDPO Office Road, thence moving towards South-East direction along with BDPO Office Road upto junction of Bust Stand Road and BDPO Office Road, thence moving towards South-West direction along with Bus Stand Road upto junction of Bus Stand Chowk and Civil Hospital Road, thence moving towards West direction along with Civil Hospital Road upto Gopi Ram Dharamshala, thence moving towards North direction upto H/o Hari Niwas Jandu, thence moving towards West direction by crossing PWD Rest House Road upto H/o Mukesh Rajan, thence moving towards South Direction along with Gali No. 160-171 upto junction of Civil Hospital Road and Gali No. 160-171, thence moving towards West direction upto Agrasen Chowk, thence moving towards South direction along with Hanuman Mandir Street upto Shop of Shakti Builders, thence moving towards West direction upto Fatehabad Road, thence moving towards North direction along with Fatehabad Road upto junction of Fatehabad Road and BDPO Office Road, that is the point of start.

Ward No. 03 :- Starting from the Agrasen Chowk, thence moving towards East direction along with Civil Hospital Road upto junction of Civil Hospital Road and Gali No. 160-171, thence moving towards North direction along with Gali No. 160-171 upto H/o Prem Singla, thence moving towards East direction by crossing PWD Rest House Road upto H/o Bhul Singh, thence moving towards South direction upto Civil Hospital Road, thence moving towards East direction along with Civil Hospital Road upto junction of Civil Hospital Road and BEO Office Road, thence moving towards South direction along with BEO Office Road upto Shop of Shukhi Garments, thence moving towards East direction by crossing BEO Office Road upto H/o Trilok Soni, thence moving towards South Direction upto Main Bazar Road, thence moving towards East direction upto Kranti Chowk, thence moving towards South Direction along with Bus Stand Road upto College Road Fatak, thence moving towards South-West direction along with Railway

Line upto junction of Daroli Road Fatak and Fatehabad Road, thence moving towards North direction along with Fatehabad Road upto Shop No. 130 of Mandi, thence moving towards East direction upto Hanuman Mandir, thence moving towards North direction along with hanuman Mandir Street upto Agrasen Chowk, that is the point of start.

Ward No. 4 :- Starting from the junction of Civil Hospital Road and BEO Office Road, thence moving towards South-East direction along with Civil Hospital Road upto junction of Civil Hospital Road and Bus Stand Chowk, thence moving towards South direction along with Bus Stand Road upto junction of Bus Stand Road and LIC Office Street, thence moving towards East direction upto LIC Office, thence moving towards South direction upto Housing Board Park, thence moving towards East direction upto H/o Jaideep Sharma, thence moving towards South direction upto H/o Bal Singh, thence moving towards East direction upto H/o Vijender Soni, thence moving towards South direction upto Govt. School Roads, thence moving towards West direction along with Govt. School Road crossing by Kranti Chowk upto Shop of Chanchan Medical Agency, thence moving towards North direction upto Shop of Ramesh Chander, thence moving towards West direction upto BEO Office Road, thence moving towards North direction along with BEO Office Road upto junction of Civil Hospital Road and BEO Office Road, that is the point of start.

Ward No 05 :- Starting from junction of BDPO office Road and Bus Stand Road, thence moving towards South-East direction along with Bus Stand Road upto New Loha Mandi Adampur, thence moving towards West direction upto H/o BalMukung Goyal, thence moving towards South direction upto H/o Balwan A.D.O, thence moving towards West direction upto Shiv Mandir, thence moving towards South direction along with Shiv Mandir Main Gali upto H/o Krishan Gaur, thence moving towards West direction upto H/o Hanuman Sharma, thence moving towards South direction upto H/o Neeraj kumar, thence moving towards West direction upto H/o Pawan, thence moving towards North direction upto Haryana Electronics Shop, thence moving towards West direction upto Mannu Sharma Office, thence moving towards North direction upto LIC Office Street, thence moving towards West direction along with LIC Office Street Bus Stand Road, thence moving towards North direction along with Bus Stand Road upto junction of BDPO office Road and Bus Stand Road, that is the point of start.

Ward No. 06 :- Starting from the junction of Minor Street and Khairampur Road, thence moving towards East direction along with Minor Street upto Eastern Municipal Boundary, thence moving towards South direction along with Municipal Boundary upto Ch. Bhajan Lal Prerna Sathal on Agroha Road, thence moving towards South-West direction along with Agroha Road by crossing Adampur Village Bus Stop upto Maha Sharwan Chowk, thence moving towards North-West direction along with Govt. School Road upto plot of Gheesa Ram Jain, thence moving towards North direction upto H/o Dr. Kiran, thence moving towards East direction upto H/o Om Parkash, thence moving towards North direction upto H/o Darshan Singh, thence moving towards West direction upto H/o Bir Singh Rhar, thence moving towards North direction upto H/o Bir Singh Rhar, thence moving towards East direction upto H/o Jagdish Chander, thence moving towards North direction upto H/o Radhe Shyam, thence moving towards East direction upto Beniwal Dharmakanta on Bus Stand Road, thence moving towards North-West direction along with Bus Stand Road joining to BDPO Office Road upto junction of BDPO Office Road and Khairampur Road, thence moving towards North direction along with Khairampur Road upto junction of Minor Street and Khairampur Road, that is the point of start.

Ward No. 07:- Starting from the Kranti chowk, thence moving towards East direction along with Govt. School Road upto shop of Saini Steels, thence moving towards North direction upto H/o Kalu Ram, thence moving towards West direction upto H/o KIshori Lal, thence moving towards North direction upto H/o Mahender, thence moving towards East direction upto H/o Prem Kumar, thence moving towards North direction upto H/o Satpal, thence moving towards East direction upto H/o Mohan Lal, thence moving towards North direction upto Shiv Mandir, thence moving towards East direction upto H/o Balwan Singh Beniwal, thence moving towards South direction upto Plot of Amar Singh Goswami Patwari, thence moving towards West direction upto H/o Ram Chander, thence moving towards South direction upto Plot of Bagirath on Brahman Dharamshala Street, thence moving towards East direction along Brahman Dharamshala Street upto Plot of Subhash Sarpanch, thence moving towards South direction upto plot of Dushyant Master, thence moving towards West direction upto H/o Dr. Kiran, thence moving towards South direction upto Govt. School Road, thence moving towards South-East direction along with Govt. School Road upto Maha Sharwan Chowk, thence moving towards South-West direction along with Bhadra Agroha Road upto Railway Line Crossing, thence moving towards North-West direction along with Railway Line upto crossing of Railway Line and Bus Stand Road, thence moving North-East direction along with Bus Stand Road upto Kranti chowk, that is the point of start.

Ward No. 08 :- Starting from the junction of FGM College Road and Bhadra Agroha Road, thence moving towards North direction along with FGM College Road upto KFC Restaurant, thence moving towards West direction upto Krishan Kumar Shop, thence moving towards North-East direction along with FGM College Road upto Big Dream Pizza Hut & Cafe, thence moving towards West direction upto H/o Jai Singh, thence moving towards North direction upto H/o Advocate Suresh, thence moving towards East direction upto H/o O.P. Dhaka, thence moving towards North

direction upto H/o Vijay Yadav, thence moving towards East direction upto H/o Surrender on Ganesh temple street, thence moving towards North direction along Ganesh temple street upto Railway Line, thence moving towards South-East direction along with Railway Line upto Railway Line Bridge on Bhadra Agroha Road, thence moving towards South-West direction along with Bhadra Agroha Road upto junction of FGM College Road and Bhadra Agroha Road, that is the point of start.

Ward No. 09 :- Starting from the junction Kalyana Colony Road and Shanti Niketan School Street, thence moving towards East direction along with Kalyana Colony Road upto H/o Sundar Dass Pahwa, thence moving towards North direction upto H/o N.K. Rewri, thence moving towards West direction upto Divya Beauty Parlour, thence moving towards North direction upto Railway Line, thence moving towards North-East direction along with Railway Line upto Annapurna Gas Repair Shop, thence moving towards South direction upto H/o Krishan, thence moving towards West direction upto plot of Satya Dev, thence moving towards South direction upto H/o Lokesh Nagpal, thence moving towards West direction upto H/o Omparkash Yadav, thence moving towards South direction upto H/o Gora Singh Subedar, thence moving towards East direction upto Shri Ganesh Photostate on FGM College Road, thence moving towards South direction along with FGM College Road upto junction of Shanti Niketan School Street and FGM College Road, thence moving towards West direction along with Shanti Niketan School Street upto the point where Shanti Niketan School Street turns towards North direction, thence moving towards North direction along with Shanti Niketan School Street upto junction Kalyana Colony Road and Shanti Niketan School Street, that is the point of start.

Ward No. 10:- Starting from the junction of Kalyana Colony Road and Sheetla Mata Temple, thence moving towards North direction upto Monga Digital studio, thence moving towards East direction upto H/o Kamlesh Grover, thence moving towards North direction upto H/o R.L. Bishnoi, thence moving towards East direction upto H/o Krishan Kumar Malhotra, thence moving towards South direction upto Digwal Kiryana Store, thence moving towards East direction upto H/o Aatam Parkash Thakral, thence moving towards South direction upto Aastha Beauty Parlour on Kalyana Colony Road, thence moving towards West direction along Kalyana Colony Road upto junction of Kalyana Colony Road and Sheetla Mata Temple, that is the point of start.

Ward No. 11 :- Starting from the Daroli Road Fatak, thence moving towards East direction along with Railway Fatak Raod upto Amar Lal Babbar Shop, thence moving towards South direction upto H/o Madan Lal Babbar, thence moving towards North-West direction upto H/o Deepak Bhatia, thence moving towards South direction upto H/o Ram Lal Kathuria, thence moving towards West direction upto H/o Anil Kumar, thence moving towards South direction upto Kalyana Colony Road, thence moving towards West direction along with Kalyana Colony Road upto junction of Daroli Road and Kalyana Colony Road, thence moving towards North-East upto Daroli Road Fatak, that is the point of start.

Ward No. 12 :- Starting from the junction of Western Municipal Boundary and Daroli Road, thence moving towards East direction along with Darolli Road upto junction of Shanti Niketan School Street and Darolli Road, thence moving towards South direction along with Shanti Niketan School Street upto the point where Shanti Niketan School Street turns towards East direction, thence moving towards East direction along with Shanti Niketan International School Street upto junction of Shanti Niketan International School Street and FGM College Road, thence moving towards South-West direction along with FGM College Road upto Nokhwal Confectionary, thence moving towards East direction along with FGM College Boundary upto Bhadra-Agroha Road, thence moving towards South-West direction along with Bhadra-Agroha Road upto Southern Municipal Boundary, thence moving towards West direction along with Southern Municipal Boundary upto the point where Southern Municipal Boundary turns towards North direction, thence moving towards North direction along with Municipal Boundary upto the Poultry Farm, thence moving towards west direction along with Municipal Boundary upto the point where Municipal Boundary turns towards North direction, thence moving towards North direction along with Municipal Boundary upto junction of Western Municipal Boundary and Daroli Road, that is the point of start.

Ward No. 13:- Starting from the junction of Western Municipal Boundary and Daroli Road, thence moving towards North direction along with the Municipal Boundary upto the point where Municipal Boundary turns towards East direction, thence moving towards East direction along with the Municipal Boundary upto the point where Municipal Boundary turns towards North direction, thence moving towards North direction along with the Municipal Boundary upto Railway Line, thence moving towards South-East direction upto Darolli Road Fatak, thence moving towards South-West direction along with Darolli Road upto Kalyana Colony Road, thence moving towards West direction upto junction of Western Municipal Boundary and Daroli Road, that is the point of start.

ARUN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.